



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2011/माघ 19, 1932

No. 259]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2011/MAGHA 19, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

का.आ. 301(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 211 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि लोक हित में छूट प्रदान करना आवश्यक है, निम्नलिखित कंपनियों के वर्गों को, इस अधिसूचना के पैरा 2 में अनुबंधित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, अपने लाभ और हानि लेखा में, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में के अधीन वर्णित कंपनियों के प्रत्येक वर्ग के सामने, स्तंभ (3) के अधीन वर्णित जानकारी प्रकट करने से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं०	कंपनियों का वर्ग	अनुसूची 6 के भाग 2 के पैराओं से छूट
(1)	(2)	(3)
1.	अंतरिक्ष अनुसंधान सहित प्रतिरक्षा उपस्कर उत्पादित करने वाली कंपनियां	पैरा 3(i)(क), 3(ii)(क), 3(ii)(घ), 4ग, 4घ (क) से (ड), सिवाय (घ) के
2.	निर्यातोन्मुख कंपनी, जिनका निर्यात आवर्त के 20% से अधिक है।	पैरा 3(i)(क), 3(ii)(क), 3(ii)(ख), 3(ii)(घ)
3.	पोत परिवहन कंपनियां (एयर लाइन्स सहित)	पैरा 4घ (क) से (ड), सिवाय (घ) के
4.	होटल कंपनियां (रेस्टोरेन्ट सहित)	पैरा 3(i)(क) और 3(ii)(घ)

(1)	(2)	(3)
5.	विनिर्माण कंपनियां/बहुउत्पाद कंपनियां	पैरा 3(i)(क) और 3(ii)(क)
6.	व्यापारिक कंपनियां	पैरा 3(i)(क) और 3(ii)(ख)

2. शर्तें

क. कंपनी के निदेशक बोर्ड ने पैरा 1 में निर्दिष्ट जानकारी को प्रकट न करने के संबंध में सहमति दे दी है ;

ख. कंपनी इस अधिसूचना के अधीन छूट प्रदान करने के तथ्य को तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा का भाग बनने वाले टिप्पण में प्रकटन करेगी ;

ग. कंपनी विहित लेखा मानकों के अनुरूप होगी ;

घ. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके वित्तीय दस्तावेज उसकी वित्तीय स्थिति की एक सही और ऋजु स्थिति दर्शित करते हैं ;

ङ. कंपनी ऐसी जानकारी रखेगी और फाइल करेगी, जो सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी विनियामक द्वारा विहित की जाए या मांगी जाए अथवा अपेक्षित की जाए ;

च. विदेशी मुद्रा धृति, यदि कोई हो, को दर्शाने के लिए लेखा बंद करने की तारीख को यथाविद्यमान विनिमय दर लागू होगी ;

3. सारणी के क्रम संख्यांक 5 और 6 में निर्दिष्ट कंपनियों के संबंध में छूट केवल उन मालों के लिए लागू होगी, जो, यथास्थिति, आवर्त, क्रय, कच्चे माल की खपत, आदि के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से कम बनती हैं ;

4. यह अधिसूचना 31 मार्च, 2011 या उसके पश्चात समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा के संबंध में लागू होगी ।

[फा. सं. 51/12/2007-सीएल. III]

डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2011

S.O. 301(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, being of the opinion that it is necessary to grant exemption in the public interest, hereby exempts following classes of companies from disclosing in their profit and loss account the information mentioned under column (3), against each class of companies mentioned under column (2) of the table given below subject to fulfillment of the conditions stipulated in paragraph 2 of this notification namely:-

TABLE

Sl. No.	Class of companies	Exemptions from paragraphs of Part-II of Schedule VI
(1)	(2)	(3)
1.	Companies producing Defence Equipments including Space Research;	paragraphs 3(i)(a), 3(ii)(a), 3(ii)(d), 4-C, 4-D (a) to (e) except (d).
2.	Export Oriented company (whose export is more than 20% of the turnover);	paragraphs 3(i)(a), 3(ii)(a), 3(ii)(b), 3(ii)(d).
3.	Shipping companies (Including Airlines);	paragraphs 4-D (a) to (e) except (d).
4.	Hotel companies (including Restaurants);	paragraphs 3(i)(a) and 3(ii)(d)
5.	Manufacturing companies/multi-product companies;	paragraphs 3(i)(a) and 3(ii)(a).
6.	Trading companies;	paragraphs 3(i)(a) and 3(ii)(b).

2. Conditions

- A. The Board of Directors of the Company has given consent with regard to non disclosure of information referred to in paragraph 1;
- B. The Company shall disclose in the Notes forming part of the balance sheet and profit and loss account, the fact of grant of the exemption under this notification;
- C. The company shall conform to the prescribed Accounting Standards;
- D. The company shall ensure that its financial documents represent a true and fair state of affairs of its finances;
- E. The company shall maintain and file such information as may be prescribed or called for or required by the government or the Reserve Bank of India or any regulator;
- F. For representation of foreign currency holdings, if any, exchange rate as on date of closing of accounts shall be applicable;

3. The exemption in respect of the companies referred to in serial numbers 5 and 6 of the Table shall be applicable only for those goods which form less than ten percent of the total value of turnover, purchase, consumption of raw material etc, as the case may be;

4. This notification shall be applicable in respect of balance sheet and profit and loss accounts prepared in respect of the financial year ending on or after the 31st March, 2011.

[F. No. 51/12/2007-CL. III]

Dr. T.V. SOMANATHAN, Jt. Secy.